

विद्या भवन , बालिका विद्यापीठ, लखीसराय

वर्ग- सप्तम

विषय- हिंदी

दिनांक - 10 - 11 - 20

विषय शिक्षिका- रूपम कुमारी

॥ अध्ययन- सामग्री ॥

पाठ 11

सुप्रभात बच्चों ,

कल की कक्षा में आपने अपनी हिंदी पाठ्य

पुस्तक के पाठ 11 की कहानी 'कर्तव्य का

पुण्य' को पढ़ना शुरू किया है । कल की
कक्षा में आपने पढ़ा कि - एक समय में 3
आदमियों की एक साथ मृत्यु हुई जिसमें एक
राजा एक साधु और एक किसान थे । राजा
के मरने पर बहुत कोहराम मचा । उसकी शव
यात्रा धूमधाम से निकाली गई ।
साधु का भी बहुत नाम था । बहुत सारे साधु
महात्मा उनके मृत्यु के बाद इकट्ठे हुए ।
मंत्र उच्चारण के साथ उनकी अंतिम क्रिया
को पूरी की गई और दान बगैरह किया गया
। अब आगे....

किसान के मरने पर पास -पड़ोसी ही उनके
घर गए । उन्होंने उसके बिलखते बच्चों को
गले से लगा लिया पर सांत्वना के अलावा

उसके पास देने को और क्या था ? सभी तो गरीब थे । बाद में किसान की इच्छा के अनुसार नदी के किनारे उसके शव को जला आए बाद में उसकी अस्थियों को नदी में बहा दिया ।

इन तीनों को लेकर यमदूत एक ही समय यमराज के दरबार में पहुंचे । उस समय यमराज किसी काम में व्यस्त थे उन्होंने तीनों को पास ही चबूतरे पर बैठने का संकेत किया । राजा को साधु और किसान के साथ बैठने पर लज्जा आ रही थी । साधु किसान से हट कर बैठना चाहता था कहीं उसे छूकर और अपवित्र ना हो जाए । इधर किसान भी साधु तथा राजा के साथ बैठने की हिम्मत

नहीं जुटा पा रहा था ।इसलिए तीनों खड़े ही रहे ।

यमराज ने फिर उनकी तरफ देखा वे तीनों के मन के भाव ताड़ गए मुस्कराए तथा तीनों को फिर बैठने का इशारा करके अपने काम में जुट गए ।इस बार उन्होंने यमराज की आज्ञा का पालन किया और कोई चारा भी नहीं था । राजा मन मसोसकर किसान के पास बैठ गया । साधु भी मन में कुछ बुदबुदाया और दूसरी ओर खिसक कर बैठ गया ।

थोड़ी देर में यमराज ने काम बंद किया उन तीनों की तरफ देखा । वे सोचने लगे क्यों ना आज देखें कि आदमी अपने कर्मों के बारे में खुद कैसे सोचता है ! उन्होंने कहा, "राजन

जीवन भर दूसरों को फैसला सुनाते रहे तुम
बताओ तुमने अब तक जो काम किए उनके
अनुसार तुम्हें स्वर्ग मिलना चाहिए या नरक
?”

आज के लिए इतना ही काफी है , पाठ के
शेषांश को हम लेकर उपस्थित होंगे ।

गृह कार्य - पठित पाठ के आधार पर
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें -

- पाठ के शीर्षक का नाम लिखें ।
- एक साथ कितने लोगों की मृत्यु हुई ?
- राजा के मरने के उपरांत शहर के लोगों
में कैसी प्रतिक्रिया हुई ?

● किसान के मरने पर उसके पड़ोसियों ने क्या किया ?

● साधु किससे हटकर बैठना चाहता था और क्यों ? ।

● यमराज ने क्या सोचा ?

●

आज के लिए बहुत काम दे दिया चलिए
फिर कल मिलेंगे ...